



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 6—जनवरी 12, 2013, शनिवार/पौष 16—पौष 22, 1934
No. 1] NEW DELHI, JANUARY 6—JANUARY 12, 2013, SATURDAY/PAUSA 16—PAUSA 22, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

आ.अ. 1.—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मणिपुर विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2012 में उनके नाम के सामने के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से स्तंभ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है ;

अतः, अब निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचनों का विवरण	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	10-उरीपोक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री नाओरेम ईबंमा देवी, ईरोईशिमबा मनिंग लेईकाल, इम्फाल, मणिपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	20-लांगथाबल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री अरामबाम बीरेन्द्र सिंह, लिलोंग छाजिंग, मेरेगखोंग, मणिपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे

[सं. 76/मणिपुर-वि.स./2012]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2013

O.N. 1.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly of Manipur, 2012 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against their name, have failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Legislative Assembly, 2012	10-Uripok Assembly Constituency	Shri Neorem Ibema Devi, Iroishemba Maning Leikal, Imphal, Manipur.	Failed to lodge any accounts of election expenses.
2.	-do-	20-Longthabal Assembly Constituency	Shri Arambam Birendra Singh, Lilong Chajing Mairrenkhong, Manipur.	-do-

[No. 76/MR-LA/2012]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

आ.अ. 2.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट मिजोरम राज्य से विधानसभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2008 में अपने नाम के सामने के स्तंभ-3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं हैं ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए निरर्हता घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचनों का विवरण	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मिजोरम राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2008	40-पालक (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री लालथलाहलोवा, सिफिर, मिजोरम	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे।

[सं. 76/मिजोरम-वि.स./2008]

आदेश से,

अनुज जापुरियार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2013

O.N. 2.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly 2008, in the Mizoram State held from the constituency specified in column 3 against his/ her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by him/her, if any, the Election Commission is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2008 from the state of Mizoram.	40-Palak (ST) LAC	Shri Lalthlahlova, Sihphir, Mizoram.	Failed to lodge accounts of election expenses at all.

[No. 76/MIZ-LA/2008]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

आ.अ. 3.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट असम राज्य से विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2011 में अपने नाम के सामने के स्तंभ-3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं हैं ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचनों का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	असम राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2011	43-बारपेटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री अब्दुल बददूस ग्राम-बनियारापाड़ा, डाकघर-गराईगाड़ी, जिला-बारपेटा, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे ।
2.	-वही-	46-सरूखेत्री विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री रकिबुल हुसैन, ग्राम-रौमाड़ी, डाकघर मजगाँव, जिला-बारपेटा (असम)	-वही-
3.	-वही-	78-गोहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री उत्तम गोवाला, ग्राम-हातीमोरा डाकघर तेतोनबाड़ी, थाना-हालेम, जिला-सोनीतपुर (असम)	विधि द्वारा यथा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे ।
4.	-वही-	89-कालियाबोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री मानव ज्योति महन्ता, सलाना वेलफेयर सेन्टर, डाकघर-सलाना, डाकघर-सलाना, जिला-नागाँवा असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे ।

[सं. 76/असम-वि.स./2011]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2013

O.N. 3.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly 2011, in the Assam State held from the constituency specified in column 3 against his/ her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidates has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2011 from the State of Assam.	43-Barpeta LAC	Shri Abdul Kaddus, Vill., Baniarapara, P.O. Garaimari, Dist.: Barpeta, Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses.
2.	-do-	46-Sarukhetri LAC	Shri Rakibul Hussain, Vill., Rowmari, P.O.: Majgaon, Dist.: Barpeta, (Assam).	-do-
3.	-do-	78-Gohpur LAC	Shri Uttam Gowala, Vill., Hatimora, P.O.-Tetonbari, P.S.-Halem, District-Sonitpur (Assam).	Failed to lodge accounts of election expenses in the manner as required by law
4.	-do-	89-Kaliabor LAC	Shri Manab Jyoti Mahanta, Salana Welfare Centre, P.O.-Salana, Dist.-Nagaon, Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses.

[No. 76/AS-LA/2011]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

आ.अ. 4.—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/अथवा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है ;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं हैं ;

4860 97/13-2

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	झारखण्ड राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2009	14-सारठ	हेमलाल रजवार, ग्राम-सहरजोरी, पो.-करमाटांड, धाना जिला-जामताड़ा, झारखण्ड।	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे।
2.	-वही-	38-सिन्धी	गोकुल चन्द्र महतो, ग्राम-बलियापुर, पत्रालय-बलियापुर, धाना-बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखण्ड।	-वही-
3.	-वही-	44-बहरागोड़ा	दिनेश्वर दुबे, म.सं. 109 दोधी, चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।	-वही-
4.	-वही-	55-मनोहरपुर (अ.ज.जा.)	सुशील बरला, ग्राम-नन्दपुर, सुरीनटोला, पो.-मनोहरपुर, जिला-प. सिंहभूम, झारखण्ड।	-वही-
5.	-वही-	-वही-	इन्द्रजीत समद, ग्राम-कुदासाई, पो.-मनोहरपुर, जिला-प. सिंहभूम, झारखण्ड।	-वही-
6.	-वही-	58-तमाड़ (अ.ज.जा.)	सोमा सिंह मुण्डा, ग्राम-वीरगांव, पोस्ट-सारजमडीह, थाना-तमाड़, रांची, झारखण्ड।	-वही-
7.	-वही-	61-सिल्ली	जीतवाहन महतो, ग्राम-बरवाडीह, पो.-राहे, जिला-रांची, झारखण्ड।	-वही-
8.	-वही-	-वही-	सुखदेव मांझी, ग्राम-पो.-अजयगढ़, थाना-सिल्ली, जिला-रांची, झारखण्ड।	-वही-
9.	-वही-	62-खिजरी (अ.ज.जा.)	सुशीला एक्का, सा.-बड़काटोली, आरा, पो-महिलोंग, थाना-टाटीसिल्वे, रांची, झारखण्ड।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	झारखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	62-खिजरी (अ.ज.जा.)	जगनु उरांव, ग्राम-डहु, हेसातू, पो.-डहु, थाना-ओरमांझी, रांची, झारखण्ड ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे ।
11.	-वही-	-वही-	जोवाकीम अमृत लाल तिग्गा, ग्राम-लाली सेरेंग टोली, पो.-लाली, थाना-नामकुम, रांची, झारखण्ड ।	-वही-
12.	-वही-	-वही-	मीनाक्षी, कुजुर, सा.-बारीक टोली, नोर्थ ऑफीस पाड़ा, डोरण्डा, रांची, झारखण्ड ।	-वही-
13.	-वही-	-वही-	सोमनाथ बेदिया, ग्राम-नगरबेड़ा, पो.-बक्सीडीह, थाना-सिकिंद्री, रांची, झारखण्ड ।	-वही-
14.	-वही-	63-रांची	रणजीत सिंह, पण्डारा, पो.-हेहल, जिला-रांची-834005, झारखण्ड ।	-वही-
15.	-वही-	-वही-	राकेश कुमार सिंह, पावर हाउस कालोनी चुटिया, रांची-834001, झारखण्ड ।	-वही-
16.	-वही-	-वही-	शिव प्रसाद अग्रवाल, दयाल नगर, पिसका मोड़, रांची-834005, झारखण्ड ।	-वही-
17.	-वही-	-वही-	सज्जाद अली, काँटा टोली, पो.-थाना-लोअर बाजार, रांची, झारखण्ड ।	-वही-
18.	-वही-	-वही-	सुरेन्द्र कुमार सुमन, म.सं. बी/27 बसुंधरा गार्डन, थाना-बरियातु, मोराबादी रांची, झारखण्ड ।	-वही-
19.	-वही-	-वही-	अजय कुमार खेतान, नॉर्थ मार्केट रोड बाइलेन अपर बाजार, रांची, झारखण्ड ।	-वही-
20.	-वही-	-वही-	जमील अख्तर, साउथ स्ट्रीट हिन्दपीढ़ी, रांची, झारखण्ड ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	झारखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	65-कांके (अ.जा.)	शान्ति देवी, ग्राम-बालू, पो.-कोकदोरो, थाना-पिठौरिया, जिला-रांची झारखण्ड ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
22.	-वही-	67-सिसई	जोसेफ आभाष मिज, ग्राम-लकेया कुम्हार मोड़, पोस्ट-सिसई, थाना-सिसई, जिला-गुमला, झारखण्ड ।	-वही-
23.	-वही-	-वही-	सुकरा लोहरा, ग्राम-सरगांव, पोस्ट-दतिया, थाना-भरनो, जिला-गुमला, झारखण्ड ।	-वही-
24.	-वही-	-वही-	सुजीत टेटे, ग्राम-बरई, पोस्ट-कुम्हारी, थाना-बसिया, जिला-गुमला, झारखण्ड ।	-वही-
25.	-वही-	69-बिशुनपुर (अ.ज.जा.)	गना उराँव, ग्राम-फोरी, थाना-गुमला, जिला-गुमला, झारखण्ड ।	-वही-
26.	-वही-	-वही-	पदमा बड़ाईक, ग्राम-मरवई, थाना-विशुनपुर, जिला-गुमला, झारखण्ड ।	-वही-
27.	-वही-	-वही-	सुखनाथ भगत, ग्राम-नवडीहा, थाना-घाघरा, जिला-गुमला, झारखण्ड ।	-वही-
28.	-वही-	73-मनिका (अ.ज.जा.)	पांडु सिंह, ग्राम-देवबार, पोस्ट-कुमण्डी, थाना-मनिका, जिला-लातेहार, झारखण्ड ।	-वही-

[सं. 76/झार.-वि.स./2009]

आदेश से,
हरबंस सिंह, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2013

O.N. 4.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2009 from the State of Jharkhand as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the Candidate	Reason of Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2009 from the State of Jharkhand	14-Sarath	Hemlal Rajwar, Vill-Saharjori, Po-Karmatar, Thana-dist-Jamtara, Jharkhand	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	38-Sindri	Gokul Chandra Mahato, Vill. Baliapur, P.S. Baliapur, Dist.-Dhanbad, Jharkhand.	-do-
3.	-do-	44-Baharagora	Dineshwar Dubey, House No.-109, Dighi, Chakulia, Distt.-East Singhbhum, Jharkhand.	-do-
4.	-do-	55-Manoharpur (ST)	Sushil Barla, Vill.-Nandpur (Surintola) P.O. Manoharpur, Distt.-West Singhbhum, Jharkhand.	-do-
5.	-do-	-do-	Indrajit Samad, Vill.-Kudasai, P.O. Manoharpur, Distt.-West Singhbhum, Jharkhand.	-do-
6.	-do-	58-Tamar (ST)	Soma Singh Muna, Vill.-Birgawn, P.O. -Sarjomdih, P.S.-Tamar, Distt.-Ranchi, Jharkhand.	-do-
7.	-do-	61-Silli	Jeetwahan Mahto, Vill.-Barwadih, PO-Rahe, Distt.-Ranchi, Jharkhand.	-do-
8.	-do-	-do-	Shukhadev Manjhi, Vill.-PO-Ajaygarh, P.S. Silli, Distt.-Ranchi, Jharkhand.	-do-

4860 52713-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	General Election to the Legislative Assembly, 2009 from the State of Jharkhand	62-Khijri (ST)	Sushila Ekka, Vill.-Barkatoli, Ara, P.O.-Mahilong, P.S.-Tatisilwai, Distt.-Ranchi, Jharkhand.	Failure to lodge any account of election expenses.
10.	-do-	-do-	Jagnu Oraon, Vill.-Dahu, Hesatu, P.O.-Dahu, P.S. Ormanjhi, Ranchi, Jharkhand.	-do-
11.	-do-	-do-	Jovakim Amrit Lal Tigga, Vill.-Lali Sereng Toli, P.O.-Lali, P.S. Namkum, Ranchi, Jharkhand.	-do-
12.	-do-	-do-	Meenakshi Kujur, Barik Toli, North Office Para, Doranda, Ranchi, Jharkhand.	-do-
13.	-do-	-do-	Somnath Bedia, Vill.-Negrabera, P.O.-Baksidih, P.S.-Sikidri, Ranchi, Jharkhand.	-do-
14.	-do-	63-Ranchi	Ranjit Singh, Pandra, P.O.-Hehal, Ranchi-834005 Jharkhand.	-do-
15.	-do-	-do-	Rakesh Kumar Singh, Power House Colony Chutia, Ranchi-834001, Jharkhand.	-do-
16.	-do-	-do-	Shiva Prasad Agrawal, Dyal Nagar Piska More, Ranchi, Jharkhand.	-do-
17.	-do-	-do-	Sazzad Ali, Kantatoli, P.O.+P.S.-Lower Bazar, Ranchi, Jharkhand.	-do-
18.	-do-	-do-	Surendra Kumar Suman, H.N. No. B/27 Vashundhara Garden, P.S.-Bariyatu, Morabadi, Ranchi, Jharkhand.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	General Election to the Legislative Assembly, 2009 from the State of Jharkhand	63-Ranchi	Ajay Kumar Khaitan, North Market Road Bylane Upper Bazar, Ranchi, Jharkhand.	Failure to lodge any account of election expenses.
20.	-do-	-do-	Jamil Aktar, South Steel Hindpiri, Ranchi, Jharkhand.	-do-
21.	-do-	65-Kanke (SC)	Shanti Devi, Vill.-Balu, P.O. Kokdoro, P.S.-Pithoriya, Ranchi, Jharkhand.	-do-
22.	-do-	67-Sisai (ST)	Joseph Abhash Minz, Vill.-Lakaya Kumhar More, P.S.-Sisai, Dist.-Gumla, Jharkhand.	-do-
23.	-do-	-do-	Sukra Lohra, Vill.-Sargaon, P.O.-Datiya, P.S.-Bharno, Dist.-Gumla, Jharkhand.	-do-
24.	-do-	-do-	Sujet Tele, Vill.-Barai, P.O.-Kumhari, P.S.-Sasia, Dist.-Gumla, Jharkhand.	-do-
25.	-do-	69-Bishunpur (ST)	Gana Oraon, Vill.-Phori, P.S.-Gumla, Distt.-Gumla, Jharkhand.	-do-
26.	-do-	-do-	Padma Baraik, Vill.-Marwai, P.S.-Bishunpur, Dist.-Gumla, Jharkhand.	-do-
27.	-do-	-do-	Sukhnath Bhagat, Vill.-Nawdiha, P.S.-Ghaghra, Distt.-Gumla, Jharkhand.	-do-
28.	-do-	73-Manika (ST)	Pandu Singh, Vill.-Deoghar P.O.-Kumandih P.S.-Manika Distt.-Latehar Jharkhand.	-do-

[No. 76/JKD-LA/2009]

By Order,

HARBANS SINGH, Secy.